



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 13 राँची, गुरुवार
17 पौष, 1937 (श०)
7 जनवरी, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग ।

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2015

संख्या-1/स्था/श०स्था०नि०-24/2015 न०वि०.4872--नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-IV में अंकित स्थान/विभाग में अगले आदेश तक पदस्थापित/सेवा वापस किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	प्रस्तावित पदस्थापन स्थान
I	II	III	IV
1	श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियंता	सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, दुमका।	कार्यपालक पदाधिकारी, दुमका नगर परिषद का अतिरिक्त प्रभार।
2	श्री सुधीर कुमार हेम्ब्रम, अधीक्षण अभियंता	अधीक्षण अभियंता, देवघर नगर निगम।	सेवा पैतृक विभाग (जल संसाधन विभाग) को वापस।

3	श्री कुमुल सुरीन, कार्यपालक अभियंता	कार्यपालक अभियंता, देवघर नगर निगम।	सेवा पैतृक विभाग (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) को वापस।
4	श्री घनश्याम कुमार अग्रवाल, कार्यपालक अभियंता	कार्यपालक अभियंता, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति।	कार्यपालक अभियंता झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची।
5	श्री शैलेश कुमार प्रियदर्शी (झा0प्र0से0),	कार्यपालक पदाधिकारी, जामताड़ा नगर पंचायत।	कार्यपालक पदाधिकारी, बुण्डू नगर पंचायत।
6	श्री आशुतोष कुमार, कार्यपालक अभियंता (प्रभारी)	कार्यपालक पदाधिकारी, विश्रामपुर नगर परिषद।	कार्यपालक पदाधिकारी, जामताड़ा नगर पंचायत।
7	श्रीमती ज्योति वंदना कुजूर (झा0प्र0से0)	कार्यपालक पदाधिकारी, बुण्डू नगर पंचायत।	कार्यपालक पदाधिकारी, विश्रामपुर नगर परिषद।
8	श्री एज्रेस मिंज, सहायक अभियंता	विशेष पदाधिकारी, जुगसलाई नगरपालिका।	सेवा पैतृक विभाग (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) को वापस।
9	श्री ललन कुमार चैधरी, सहायक अभियंता	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	सहायक अभियंता, देवघर नगर निगम।
10	श्री रामलखन चौधरी, कार्यपालक अभियंता	कार्यपालक अभियंता, देवघर नगर निगम।	कार्यपालक अभियंता झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची।
11	श्री चन्दन कुमार दूबे, सहायक अभियंता (यांत्रिक)	सहायक अभियंता (यांत्रिक), देवघर नगर निगम।	सहायक अभियंता (यांत्रिक), राँची नगर निगम।
12	श्री इन्द्रेश कुमार शुक्ला, कार्यपालक अभियंता	कार्यपालक अभियंता, धनबाद नगर निगम।	कार्यपालक अभियंता, देवघर नगर निगम।

13	डा० किरण कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी	स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से सेवा प्राप्त।	सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी, राँची नगर निगम।
14	श्री प्रेम कुमार महतो, सहायक अभियंता	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	कार्यपालक पदाधिकारी, चाईबासा नगर परिषद।

2. अधिसूचना संख्या-4077 दिनांक 04 नवम्बर, 2015 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
राहुल कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।
